

30

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 2004/पौष 25, 1925

No. 63] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2004/PAUSA 25, 1925

संस्कृति विभाग

(भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना


नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2004

का.आ. 79(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि इसके साथ उपाबद्ध स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक, स्थलसयाना पेरुमल मंदिर राष्ट्रीय महत्व का है;

अब, इसलिए, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने इरादे का इसके द्वारा नोटिस देती है;

उक्त प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए आपत्ति राजकीय राजपत्र में इस अधिसूचना को जारी किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उक्त प्राचीन स्मारक में रुचि लेने वाले किसी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जिस पर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली-110011 द्वारा विचार किया जाएगा।

स्थल सयाना पेरुमल मंदिर, मामल्लापुरम् का स्थल मानचित्र
तालुक तिरुवकलुकुंदरम जिला : कांचीपुरम राज्य तमिलनाडु



संरक्षण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र

अनुसूची

जिला	उप-संभाग	स्थान	स्मारक का नाम	संरक्षण के अधीन शामिल किए जाने वाली राजस्व भुखंड	क्षेत्र	स्वामित्व	सीमाएं	अभ्युक्तियां
कांचीपुरम्	तिरुक्लुकुंदरम	महाबलीपुरम	स्थलसयाना पेरुमल मंदिर	उत्तर : 272/1 (रोड) पूर्व : 272/3 (बस स्टैण्ड) दक्षिण : 166 (रोड) पश्चिम : 161 (स्मारक समूह)	02.31 एकड़ क्र० सं० 272/2	अहिन्दू धार्मिक एवं धर्मार्थ धर्मदाय (तमिलनाडु सरकार)	उत्तर : 272/1 (रोड) पूर्व : 272/3 (बस स्टैण्ड) दक्षिण : 166 (रोड) पश्चिम : 161 (स्मारक समूह)	

[फा. सं. 2-33/2003-एम]

आर.सी. मिश्र, अपर महानिदेशक तथा संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF CULTURE
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION


New Delhi, the 13th January, 2004

S.O. 79(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the ancient monument, Sthalasayana Perumal Temple as specified in the Schedule and the Site Plan annexed hereto, is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance;

Any objection to the declaration of the said ancient monument to be of national importance may be made within a period of two months from the date of issue of this notification in the Official Gazette, by any person interested in the said ancient monument which will be taken into consideration by the Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi-110011.

**SITE PLAN OF
STHALA SAYANA PERUMAL TEMPLE
AT MAMALLAPURAM, TALUK TIRUKKALUKUNDRAM
DISTT. KANCHIPURAM, TAMILNADU**



AREA PROPOSED FOR PROTECTION — — — — —

SCHEDULE

District	Sub-Division	Locality	Name of the Monument	Revenue Plot Numbers to be included under protection	Area	Ownership	Boundary Remarks
Kanchipuram	Thirukalukundram	Mahabalipuram	Sthalasayana Perumal Temple	North : 272/1 (Road) East : 272/3 (Bus Stand) South 166 (Road) West : 161 (Group of Monuments)	02.31 Acres S. No. 272/2	Hindu Religious & Charitable Endowments (Government of Tamilnadu)	North : 272/1 (Road) East : 272/3 (Bus Stand) South 166 (Road) West : 161 (Group of Monuments)

[F. No. 2-33/2003-M]

R. C. MISRA, Addl. Director General & Jt. Secy.